

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद

सं0 सामान्य प्रशासन (मुख्य)/नीलामी/562

दिनांक : 19-02-2018

नीलामी सूचना

इस कार्यालय में निष्प्रयोज्य सामग्रियों के निस्तारण/ बिक्री हेतु (जहाँ है जैसा है के आधार पर) सील बंद लिफाफे में दिनांक **15-03-2018** को अपराह्न 03:00 बजे तक दरें आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक निविदादाता दिनांक **06-03-2018** एवं **07-03-2018** को अपराह्न 03:30 बजे से 04:30 बजे तक निष्प्रयोज्य सामग्रियों का निरीक्षण कर सकते हैं। निविदादाता को निविदा में भाग लेने हेतु EMD धनराशि के रूप में रु. 20000/- (रु० बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, जो “वेतन एवं लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद” के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा बिना EMD धनराशि के कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।



लेखाधिकारी/सामान्य प्रशासन

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, 30 प्र0, इलाहाबाद

इस कार्यालय द्वारा निष्प्रयोज्य सामग्रियों (जहाँ है जैसा है के आधार पर) के निस्तारण / बिक्री हेतु सीलबंद लिफाफे में दिनांक **15-03-2018** को अपराह्न **03.00** बजे तक निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। खुले हुए लिफाफे स्वीकार नहीं होंगे। निष्प्रयोज्य सामग्रियों के निस्तारण / बिक्री की शर्तें निम्नलिखित हैं:

निष्प्रयोज्य सामानों की नीलामी की शर्तें

1. निष्प्रयोज्य सामग्री क्रय करने के इच्छुक व्यक्तियों को दिनांक **06-03-2018** एवं **07-03-2018** को अपराह्न 03:30 से 04:30 तक कार्यालय परिसर में निष्प्रयोज्य सामानों का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।
2. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ EMD धनराशि के रूप में रु.20000/- (रु0 बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, जो “वेतन एवं लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम, 30 प्र0, इलाहाबाद” के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा। बिना EMD धनराशि के कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक प्रत्येक निविदादाता को अपनी पहचान एवं निवास से सम्बंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता द्वारा प्रस्तावित दरों के मुहरबंद लिफाफे दिनांक **15-03-2018** को अपराह्न **03.00** बजे तक श्री **एल.एस.परिहार, लेखाधिकारी/पेंशन (तृतीय तल)** के कक्ष में रखे बक्से में डाले जायेंगे या डाक द्वारा भेजे जायेंगे एवं तत्पश्चात उसी दिन निर्धारित समिति द्वारा उपस्थित प्रतियोगियों अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष अपराह्न **03:30** बजे खोले जायेंगे।
5. निविदा प्रस्ताव खोलने की तिथि से 30 दिनों के लिए मान्य होंगे।
6. सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तावित एवं इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत दर की कुल धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी, यदि वह प्रस्तावित एवं स्वीकृत कुल धनराशि (EMD धन को घटाकर) तुरन्त इस कार्यालय के रोकड अनुभाग में जमा करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा EMD धनराशि रु. 20000/- जब्त कर ली जायेगी। विफल निविदादाताओं की जमा

EMD धनराशि नीलामी की प्रक्रिया के पूर्ण होने की तिथि के 30 (तीस) दिनों के अन्दर प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर वापस कर दी जायेगी । EMD धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

7. सफल निविदाकर्ता को सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के बाद अगले 24 घण्टे (प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक) में नीलाम की गयी सामग्री ले जानी होगी ।

8. यदि कोई सफल निविदादाता कुल राशि जमा करने के बाद अगले 24 घंटे (प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक) के अंदर सामान नहीं उठा पाता तो उससे रु.500.00 प्रतिदिन की दर से स्टोरेज चार्ज लिया जायेगा जो सामान उठाने की तिथि तक इस कार्यालय के रोकडिया के पास जमा करना होगा। सामान उठाने/ ले जाने हेतु नियोजित श्रमिक, वाहन तथा अन्य मदों पर हुआ व्यय सम्बंधित निविदादाता को वहन करना होगा।

9. सक्षम अधिकारी द्वारा सामग्री उठाने हेतु निर्देशित किये जाने की दशा में, यदि कोई निविदा दाता अपने द्वारा प्रस्तावित/अंकित की गयी दर पर सामग्री नहीं उठाता है तो, उसके द्वारा जमा की गयी EMD धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

10. नीलामी में सरकारी कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी ऐसा करने वाले सरकारी कर्मचारियों का कृत्य आचार नियमावली के प्रतिकूल समझा जायेगा ।

11. किसी भी प्रकार के देय करों के भुगतान की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।

12. निष्प्रयोज्य सामानों का **2** डेर (लाट) होगा और भागीदार को पूरे डेर की कीमत लिखित रूप में मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी ।

13. किसी विवाद की स्थिति में उपमहालेखाकार/ प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय का निर्णय अन्तिम और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा एवं न्यायिक क्षेत्र इलाहाबाद, (उ०प्र०) होगा ।

लेखाधिकारी सामान्य प्रशासन (मुख्य)

सेवा में,

लेखाधिकारी
कार्यालय म0ले0 (ले0 एवं हक0)—द्वितीय
उ0प्र0, इलाहाबाद।

महोदय,

आपके कार्यालय की निष्प्रयोज्य सामग्रियों के क्रय हेतु मैं अपनी दर निम्न प्रकार अंकित करता

हूँ :-

लाट सं०	प्रस्तावित दर	
	अंको में (रू०)	शब्दों में (रू०)
1	फर्नीचर	
2	विद्युत उपकरण	

संलग्नक :

1. रु. 20000/- (रू० बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट (मूल रूप में) जो “वेतन एवं लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद” के पक्ष में देय हो।
2. पहचान एवं निवास से सम्बंधित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति।

भवदीय

हस्ताक्षर :-

पूरा नाम :-

पूरा पता :-

मोबाइल नं० :-